



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 576 राँची, शुक्रवार,

19 जुलाई, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची

संकल्प

12 जुलाई, 2019

**संख्या-5/आरोप-1-19/2018-3679 (HRMS)--** श्री नारायण राम, झा०प्र०से० (द्वितीय सीमित बैच, गृह जिला-गिरिडीह), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डोमचाँच, कोडरमा के विरुद्ध उपायुक्त, कोडरमा के ज्ञापांक-154, दिनांक-07.02.2018 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित हैं-

**आरोप सं०-1.** डोमचाँच प्रखण्ड अन्तर्गत तेतरियाडीह पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुकों के चयन में अनियमितता बरती गई है।

**आरोप सं०-2.** अनियमितता के आलोक में संदिग्ध मामलों के सत्यापन कराने हेतु निर्देश के बावजूद आपके द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया।

**आरोप सं०-3.** पंचायत सेवक सहदेव यादव द्वारा अनियमितता को संज्ञान में लाने पर उसका स्थानांतरण कर दिया गया।

**आरोप सं०-4.** दीपक कुमार सिन्हा, कम्प्युटर ऑपरेटर को कार्य से हटाने का निर्देश देने के बावजूद उनसे कार्य कराया गया। जाँच के क्रम अनियमितता में दीपक कुमार सिन्हा की संलिप्तता पायी गयी।

**आरोप सं०-5.** तेतरियाडीह पंचायत के लाभुकों के निबंधन में पंचायत सेवक से नियमानुसार लाभुकों का निबंधन नहीं कराया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1561, दिनांक 27.02.2018 द्वारा श्री राम से स्पष्टीकरण की माँग की गई, जिसके अनुपालन में श्री राम द्वारा अपने पत्र, दिनांक 19.04.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री राम के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3884, दिनांक 04.06.2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गई। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2409, दिनांक 12.06.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री राम के स्पष्टीकरण पर असहमति संसूचित करते हुए इनको निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई।

श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत श्री राम को विभागीय अधिसूचना सं०-1052(HRMS), दिनांक 24.07.2018 द्वारा निलम्बित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं०-1191(HRMS), दिनांक 01.08.2018 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-229, दिनांक 06.11.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप सं०-1, 2, 3, 4 को प्रमाणित तथा आरोप सं०-5 को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं०-446(HRMS), दिनांक 05.02.2019 द्वारा श्री राम को निलंबन मुक्त किया गया एवं इनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए सेवा सम्पुष्टि की अर्हता की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत इनकी तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-1132, दिनांक 06.02.2019 द्वारा श्री राम से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया है। श्री राम द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अपने पत्र दिनांक 06.06.2019 द्वारा समर्पित किया गया है।

श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन तथा इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गयी। समीक्षा में यह पाया गया है कि श्री राम द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में वही तथ्य दोहराये गये हैं, जो उनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण अथवा संचालन पदाधिकारी के समक्ष उल्लेखित किये गये हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में पंचायत तेतरियाडीह, डोमचांच उत्तरी एवं डोमचांच दक्षिणी अन्तर्गत लाभुकों के चयन में गंभीर अनियमितता हेतु श्री राम द्वारा ग्राम सभा को जिम्मेवार प्रतिवेदित किया गया है, किन्तु पंचायत तेतरियाडीह ग्राम काराखूँट निवासी खेमिया देवी, पिता/पति विशुन यादव के रजिस्ट्रेशन सं०- जे०एच०1029874 पर किसी अन्य डलिया देवी को भुगतान, तेतरियाडीह निवासी चम्पा देवी, पिता/पति जगदीश पाण्डेय के रजिस्ट्रेशन सं०- जे०एच० 360832 पर अन्य अनुपमा पाण्डेय, पिता/पति श्री पाण्डेय को भुगतान, चमेली देवी, पिता/पति-छोटु सिंह (मृत) के स्थान पर अन्य चमेली देवी, पिता/पति-रामविकास सिंह को भुगतान, तेतरियाडीह के बंगायकला

निवासी मालती देवी, पिता/पति-महावीर राम (जेनरल कोटि) के रजिस्ट्रेशन सं०- जे०एच० 1134339 पर अन्य ममता देवी, पिता/पति-मनोज राम (एस०सी० कोटि) को राशि निर्गत करने हेतु पंचायत सचिव एवं रोजगार सेवक के साथ-साथ श्री राम भी समान रूप से जिम्मेवार प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन्हीं के डिजिटल सिग्नेचर से चयनित लाभार्थियों के बदले दूसरे व्यक्तियों के खाता में राशि अन्तरित की गई है। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा गठित जाँच समिति के जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने के उपरांत राशि वसूली हेतु नीलाम पत्र दायर कर देने मात्र से श्री राम अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं। संचालन पदाधिकारी द्वारा यह तथ्य भी प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है कि पंचायत सेवक श्री सहदेव यादव द्वारा दिनांक 17.08.2017 को ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम तेतरियाडीह में गलत लाभुकों का चयन/भुगतान संबंधित प्रतिवेदन समर्पित किया गया था, किन्तु श्री राम द्वारा उनके प्रतिवेदन पर काफी विलंब से कार्रवाई की गई एवं दिनांक 31.08.2017 को श्री यादव का स्थानांतरण अन्य पंचायत में कर दिया गया।

अतः समीक्षोपरांत, श्री नारायण राम, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डोमचाँच, कोडरमा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए सेवा सम्पुष्टि की अर्हता की तिथि से उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	NARAYAN RAM JHK/JAS/224	श्री नारायण राम, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डोमचाँच, कोडरमा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**  
सरकार के संयुक्त सचिव  
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

-----